

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

Tel.:011-26597534

No. IITD/IRD/RP03439G/176999**Date:01/06/2018****Advertisement No.: IITD/IRD/113/2018**

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Design of Anti-Mine Boots (AMBs) using finite Element simulations with Human Body Model (HBM) (JATC Sub project # 13 under MI001618) (RP03439G)	
Funding Agency	DRDO, Ministry of Defence	
Name of the Project Investigator	Prof. Devendra Kumar Dubey,	
Dept./Centre	Department of Mechanical Engineering	
Duration of the project	Upto: 05.10.2022	
Post(s)	Consolidated pay-slabs	Qualifications
Project Associate (2)	Rs.27,500-30,250-33,000-35,750-38,500-41,250-44,000/- p.m. plus HRA @ 20%	1 st class B.Tech. in Mechanical Engineering discipline with more than 80% marks. Working knowledge of LS-DYNA, ANSYS and SOLIDWORKS with more than 3 years of professional experience is required. Must have very good fundamental knowledge of finite element method OR 1 st class M.Tech. in Mechanical Engineering discipline with more than 75% marks with strong fundamentals. Advanced working knowledge of FE using LS-DYNA, ANSYS, and proficiency in CAD modelling with a professional work experience of at least 1 year.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No.-IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail to **Prof. Devendra Kumar Dubey with advertisement No. on the subject line to: dubeyiitd@gmail.com**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, **the candidate may contact Prof. Devendra Kumar Dubey at his e-mail id: dubeyiitd@gmail.com** 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/ superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing ird Norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for receipt of duly completed applications by e-mail is 15/06/2018 by 5 pm.** The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)
सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Dept./Centres/Units के प्रमुख: यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन की सामग्री आपके विभाग / केंद्र / यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा
- वेबमास्टर, आईआरडी (Web Master, IRD): आईआईटीडी वेबसाइट पर विज्ञापन डालने के लिए
- नोटिस बोर्ड (Notice Board)
- विज्ञापन फाइल (Advertisement File)
- प्रो.देवेंद्र कुमार दुबे, परियोजना अन्वेषक, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग